



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 10-01-2023

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-01-10 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-01-11	2023-01-12	2023-01-13	2023-01-14	2023-01-15
वर्षा (मिमी)	0.0	2.0	5.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	18.0	15.0	10.0	12.0	12.0
न्यूनतम तापमान(से.)	8.0	5.0	3.0	2.0	2.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	70	75	75	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	35	35	30	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	320	310	110	110	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	5	3	2	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में, 11 व 12 जनवरी को बूँदा-बाँदी या हल्की वर्षा हो सकती है तथा शेष दिन मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 10.0-18.0 व 2.0-8.0 से डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा के 6.0 किमी/घंटे की गति से उत्तर-पश्चिम व पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा से चलने का अनुमान है।

### सामान्य सलाहकार:

आईएमडी मौसम पूर्वानुमान और आपके स्थान की कृषि मौसम संबंधी सलाह अब मेघदूत मोबाइल ऐप पर अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। कृपया निम्न लिंक से डाउनलोड करें: एंड्रॉयड: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot> आईओएस: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155> इसरो-आईएम डी की वनस्पति सूचना प्रणाली द्वारा प्राप्त एनडीवीआई जो कि 0.09 से 0.43 के बीच है, जिले में वनस्पति/कृषि की प्रारम्भिक अवस्था को दर्शाता है। सिंचित घाटी क्षेत्रों में टमाटर, शिमला मिर्च एवं बैंगन की खेती के लिए पॉलीहाउस या पॉलीटनल में सब्जी पौध तैयार करने के लिए स्थान का चुनाव कर मिट्टी का उपचार करें साथ ही साथ किसी अच्छे संस्था से जलवायु के अनुरूप प्रजाति का चुनाव कर बीज क्रय करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में, 11 व 12 जनवरी को बूँदा-बाँदी या हल्की वर्षा हो सकती है तथा शेष दिन मौसम साफ रहेगा।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	असिंचित दशा में बोयी गयी फसल में आवश्यकतानुसार निराई कर खरपतवार निकाल लें तथा सिंचित फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु संस्तुत खरपतवारनाशी रसायन का प्रयोग करें। चैड़ी पत्ती वाले खरपतवार की अधिकता होने पर 2,4 डी की 500 ग्राम/है या मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल की 4.0 ग्राम/ है0 को नवम्बर माह में बुवाई करने पर 30-35 दिन में तथा सकरी पत्ती वाले खरपतवार की अधिकता होने पर आइसोप्रोट्यूरोन 1 किग्रा/है0 की दर से बुवाई के 30-35 दिन में प्रयोग करें। असिंचित गेहूँ में, वर्षा पश्चात खेत में नमी होने पर 1.2 किग्रा तथा सिंचित गेहूँ में सिंचाई के पश्चात् 2.0-2.5 किग्रा प्रति नाली की दर से यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें।
जौ	असिंचित दशा में बोई गई फसल में वर्षा के पश्चात् 1.2 किग्रा प्रति नाली की दर से यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेब	सेब तथा गुठलीदार फलों में तना विगलन रोग की रोकथाम के लिए प्रभावित सेब तथा गुठलीदार फलों के तनों के चारों तरफ मिट्टी हटाएँ जिससे धूप की किरणें ग्रसित भाग पर पड़े। प्रभावित छालों को हटाकर इसमें चैबटिया पेस्ट लगाकर मिट्टी से ढक दें।
शिमला मिर्च	शिमला मिर्च की उन्नत किस्म का बीज क्रय कर नर्सरी में बुवाई करें। पाले से बचाव हेतु पौधशाला को सफेद प्लास्टिक से इस तरह ढके कि सूर्य की रोशनी के साथ-साथ हवा का संचार भी हो सके (जमीन से 1 मीटर उपर)।
आलू	आलू की फसल में पछेती झुलसा रोग के प्रकोप से बचाव हेतु मैनकोजेब 2.5 ग्रा0/ली0 पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	सरदी से बचाव के लिए पशुघर का प्रबंध ठीक से करें। ठंड में पशुओं के आहार में तेल और गुड़ की मात्रा बढ़ा दें। अधिक ठंड की स्थिति में पशुओं को अजवाइन और गुड़ दें। पहाड़ी क्षेत्रों में पशुशाला में गर्मी हेतु हीटर का उपयोग करें। तथा अंगेठी का उपयोग धुँआँ निकलने के बाद कर सकते हैं।

### मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	मुर्गियों के आवास के तापमान का अनुरक्षण करें तथा उचित तापमान रखें।